

डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान – क्षेत्रीय केंद्र, मोदीपुरम पर आगमन

दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान- क्षेत्रीय केंद्र, मोदीपुरम का आगमन हुआ। केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉ मनोज कुमार ने महानिदेशक महोदय का स्वागत किया। महानिदेशक महोदय ने केंद्र के प्रांगण में वृक्षारोपण किया। संयुक्त निदेशक डॉ मनोज कुमार ने महानिदेशक को केंद्र पर चल रही आलू अनुसंधान संबन्धित गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महानिदेशक महोदय ने केंद्र की ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, कृषक प्रशिक्षण सभागार, एवं आलू प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण किया। पादप संरक्षण प्रयोगशाला में संचालित अनुसंधानिक कार्यों की जानकारी ली। प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र में वैज्ञानिकों के साथ केंद्र पर चल रहे अनुसंधान से संबन्धित कार्यों के संबंध में चर्चा की और संस्थान द्वारा विकसित की गई आलू उत्पादन की उन्नत तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का आह्वान किया, जिससे किसान कम लागत अधिक उत्पादन करके अधिक लाभ पा सके।

इसके पश्चात निदेशक महोदय ने भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मेरठ के प्रांगण में राष्ट्रीय एकता दौड़ में दोनों संस्थानों के स्टाफ सदस्यों के साथ भाग लिया और उनको राष्ट्रीय सद्भावना की शपथ दिलवाई। उसके पश्चात महानिदेशक महोदय ने दोनों संस्थानों के उपस्थित वैज्ञानिकों, तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी समस्याएँ धैर्यपूर्ण सुनी और उनको संभावित हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने उपस्थित स्टाफ सदस्यों को अपने संस्थान और परिषद के हितार्थ कार्य करने और किसानों के लिए उपयोगी तकनीकों को विकसित करने और उनका प्रसार किसानों के खेतों तक करने का आह्वान किया।

